






COVERED AREA OF ONE E.W.S. UNIT-A
AREA DETAIL
i = 5.268 x 5.740 = 30.238 sq.m.
ii = 2.173 x 1.000 = 2.173 sq.m.
iii = 3.095 x 1.000 = 3.095 sq.m.
= (i+ii+iii)
= (30.238+2.173+3.095)
= 35.506 Sq.M.



COVERED AREA OF UNIT-B
AREA DETAIL
i = 5.270 x 5.740 = 30.250 sq.m.
ii = 2.173 x 1.000 = 2.173 sq.m.
iii = 3.098 x 1.000 = 3.098 sq.m.
= (i+ii+iii)
= (30.250+2.173+3.098)
= 35.521 Sq.M.



ग्यावरण की दृष्टि से राज्य वन में
अतिरिक्त के अन्तर्गत कम से कम
50 प्रतिशत लकड़ा अनिवार्य है।

स्थानित सम्बन्धी कितनी भी विवाद
की स्थिति में मानचित्र की स्वीकृति
व्यक्त निरस्त समझी जायेगी।

स्थल पर एक बाड़ पर स्वीकृत मानचित्र की
नक़्का में दिनांक लिखना अनिवार्य होगा।

वर्ष 2014-15
आदिता विश्व विकास प्राधिकरण
गुवाहाटी

सहायक अभियन्ता
मानचित्र अनुभाग
अवर अभियन्ता
मानचित्र अनुभाग

CIRCULATION AREA		
D	51.415X 1.20	= 61.698
TOTAL		
TOTAL = 61.698 X 4		= 246.792 SQ.M.

S.NO.	SCHEDULE	SIZE	CILL	UNTEL
1	D1	1000X2100	0	2100
2	D3	7500X2100	0	2100
3	W	2700X1900	600	2100
4	W1	1000X1500	600	2100
5	W2	1000X1500	1050	2100
6	W3	1200X1500	600	2100
7	V	600X900	1200	2100

AREA DETAIL OF UNIT - A		
A	5.268 x 6.740	= 35.506 SQ.M.

AREA DETAIL OF UNIT - B		
B	5.270 x 6.740	= 35.521 SQ.M.

CIRCULATION AREA		
C	2.000 X 3.815	= 7.630
TOTAL CIRCULATION AREA		= 7.630 SQ.M.

TOTAL COVERED AREA FOR TYPICAL FLOOR
(G.F. TO 4th FL.)
6(UNIT-A) + 3(UNIT-B) + 2(CIRCULATION AREA)
6(35.501) + 3(35.521) + 2(7.630)
(213.006 + 106.563 + 15.260) SQ.M. ----- = 334.829 SQ.M.
TYPICAL FLOOR COVD. AREA ----- = 334.829 SQ.M.

COVD. AREA DETAIL OF E.W.S. BLOCK FOR F.A.R.
PURPOSE
TOTAL COVD. AREA OF TYPICAL FLOORS
= (G.F.L. TO 3rd. FL.) = 334.829 X 4 = 1339.916 SQ.M.

COVD. AREA DETAIL OF MUMTY
= 2.460 X 3.815 = 9.384 SQ.M.
TOTAL COVD. AREA OF TYPICAL FLOORS
= (G.F.L. TO 3rd. FL.) = 9.384 X 2 = 18.768 SQ.M.

PROJECT TITLE
PROPOSED PLAN OF 'EWS BLOCK-19,
20 & 21' AT ADITYA WORLD CITY,
INTEGRATED TOWN SHIP VILLAGE
SHAHPUR - BAMHETA, PARGANA
DASNA TEHSIL & DIST. GHAZIABAD.

SCALE	NORTH
1:100	
DATE	

CLIENT:-
M/S AGARWAL ASSOCIATES PROMOTERS LTD.
BHARAT BHAWAN, 10, NEW RAJDHANI ENCLAVE,
ADJACENT TO PREET VIHAR METRO STATION,
VIKAS MARG, DELHI-110092 (INDIA).
TEL: 91-11-43432222

ARCHITECTS :
GEETANJALI CONSTRUCTIONS
30, JAI LAXMI APPARTMENT,
INDERPRASTHA EXTENSION, DELHI-110092.
TEL: 91-11-2246535, +91-9810272512

OWNER'S SIGN
For Agarwal Associates (Promoters) Ltd.
Authorized Signatory

ARCHITECT'S SIGN
MEENU JAIN
Architect
C/2002/20026
Jai Laxmi Apartment,
19, T.P. Extn., Pargana,
Delhi-110092
AWC/EWS & LG/GHS/RD/14

